



टिप्पणियाँ

8

कोलाइड

आप विलयनों से परिचित हैं। इनकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूध, मक्खन, पनीर, क्रीम, रंगीन रत्न, बूट पॉलिश, रबर, स्याही आदि अनेक पदार्थ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भी एक प्रकार के विलयन हैं। उन्हें कोलॉइडी विलयन कहते हैं। 'कोला' का अर्थ है सरस और 'आइड' का अर्थ समान है अर्थात् कोलाइड का अर्थ है - सरस के समान। पानी में शर्करा के विलयन में अथवा पानी में नमक के विलयन में विद्यमान कणों की अपेक्षा कोलॉइडी विलयन में विद्यमान कणों का आमाप बड़ा होता है। इस पाठ में आप कोलॉइडी विलयनों को बनाने की विधियाँ, उनके गुणधर्म और अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन के बीच पाई जाने वाली भिन्नता की व्याख्या कर सकेंगे,
- कोलॉइडी विलयन की प्रावस्थाएँ बता सकेंगे,
- कोलॉइडों को वर्गीकृत कर सकेंगे,
- कोलॉइडों को बनाने की विधियों का वर्णन कर सकेंगे,
- कोलॉइडी विलयनों के कुछ गुण धर्मों की व्याख्या कर सकेंगे,
- जैल और पायसों के बीच भिन्नता का वर्णन कर सकेंगे और
- दैनिक जीवन में कोलॉइडी विलयनों के अनुप्रयोगों के उदाहरण दे सकेंगे।
- नैनो पदार्थ और उनके उपयोग के बारे में जान सकोगे।

8.1 वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन

आप जानते हैं कि पानी में शर्करा का विलयन समांग होता है, पर दूध में नहीं। दूध को ध्यान से देखने पर उसमें तेल की बूंदें तैरती दिखेंगी। इसलिए, यद्यपि वह समांग लगता है पर वास्तव

में वह विषमांग होता है। सभी प्रकार के विलयनों का स्वभाव विलेय कणों के आमाप पर निर्भर करता है। यदि आमाप 1 से 100 nm के बीच हो तो कोलाइडी विलयन बनता है, जब विलेय कणों का आमाप 100 nm से अधिक हो तो वह निलंबन के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था होती है। (सारणी 8.1)

सारणी 8.1 : वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के सामान्य गुणधर्म

क्रमांक	गुणधर्म का नाम	वास्तविक विलयन	कोलाइडी विलयन	निलंबन
1.	आमाप	कणों का आमाप 1nm से कम होता है	कणों का आमाप 1nm और 100 nm के बीच होता है।	कणों का आमाप 100 nm से अधिक होता है।
2.	निस्पंदनीयता	साधारण निष्पंदक पत्र और जंतु झिल्ली से निकल जाते हैं।	साधारण निष्पंदक पत्र से निकल जाते हैं किन्तु जंतु झिल्ली से नहीं निकलते।	साधारण निष्पंदक पत्र और जंतु झिल्ली दोनों से नहीं निकलते हैं।
3.	निःसादन	स्थिर अवस्था में कण नीचे नहीं बैठते हैं।	कण स्वयं नीचे नहीं बैठते हैं कन्तु अपकेन्द्रण द्वारा उन्हें नीचे बैठाया जा सकता है।	गुरुत्व के प्रभाव से कण स्वयं नीचे बैठ जाते हैं।
4.	दृश्यता	कणों को आंखों से अथवा सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है।	कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है किन्तु सूक्ष्मदर्शी द्वारा उनका प्रकीर्णन प्रभाव देखा जा सकता है।	कणों को आंखों से देखा जा सकता है।
5.	पृथक्करण	विलेय कणों और विलायक को साधारण निस्पंदन अथवा अति-सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता है।	विलेय कणों और विलायक को साधारण निस्पंदन द्वारा पृथक् नहीं किया जा सकता है किन्तु अति-सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा पृथक् किया जा सकता है।	विलेय कणों और विलायक को साधारण निस्पंदन द्वारा पृथक् किया जा सकता है।
6.	विसरण	शीघ्र विसरित होता है	धीरे-धीरे विसरित होता है।	विसरित नहीं होता है।



टिप्पणियाँ

8.2 कोलाइडी विलयन

कोलाइडी विलयन विषमांग होते हैं और उनमें कम से कम दो प्रावस्थाएँ होती हैं : परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम।

मॉड्यूल - 3

द्रव्य की अवस्थाएँ



टिप्पणियाँ

कोलाइड

- **परिक्षिप्त प्रावस्था** : वह पदार्थ जो कम मात्रा में विद्यमान रहता है और इसके कण कोलाइडी आमाप (1 से 100 nm) के होते हैं।
- **परिक्षेपण माध्यम** : यह वह माध्यम है जिसमें कोलाइडी कण परिक्षिप्त रहते हैं। पानी में, गंधक कोलाइडी विलयन से गंधक कण परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं और पानी परिक्षेपण माध्यम होता है। ये दो प्रावस्थाएँ : परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं। इस प्रकार दो प्रावस्थाओं की भौतिक अवस्था के अनुसार कोलाइडी विलयन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। सारणी 8.2 में विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयन और उनके उदाहरण दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते हैं क्योंकि विसरण गुणधर्म के कारण समांगी मिश्रण बना लेते हैं।

ऊपर दिए गए विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयनों में विलय (द्रव में ठोस), जैल (ठोस में जल), और पायस (द्रव में द्रव) प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो विलेय को जल विलय कहते हैं और यदि परिक्षेपण माध्यम ऐल्कोहॉल हो तो विलेय को ऐल्को विलय कहते हैं।

सारणी 8.2: कोलाइडी विलयनों के प्रकार

क्रमांक	परिक्षिप्त प्रावस्था	परिक्षेपण माध्यम	कोलाइडी विलयन का प्रकार	उदाहरण
1.	ठोस	ठोस	ठोस विलयन	रंगीन रत्न
2.	ठोस	द्रव	विलय	पेन्ट, पंक्ति जल, स्वर्ण विलय, स्टार्च विलय, आर्सिनस सल्फाइड विलय
3.	ठोस	गैस	ठोस वायु विलय	धुआँ, वायु में धूल
4.	द्रव	ठोस	जैल	जैली, पनीर
5.	द्रव	द्रव	पायस	दूध, क्रीम
6.	द्रव	गैस	द्रव ऐल्कोहल	धूमिका, कुहरा, बादल
7.	गैस	ठोस	ठोस फोम	फोम, रबर, झाँवा पत्थर
8.	गैस	द्रव	फोम	फेन, फैंटी क्रीम



पाठगत प्रश्न 8.1

1. निम्नलिखित पदार्थों को निलंबन, कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में वर्गीकृत कीजिए:
दूध, पानी में शर्करा, पानी में मिट्टी, रुधिर, बूट पॉलिश, पानी में बालू, क्रीम, जैली, फोम।

2. प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए :
 - (i) विलय (ii) जैल (iii) वायु विलय (iv) पायस
3. ऐल्कोसॉल और हाइड्रोसॉल में क्या अंतर है?
4. वास्तविक विलयन और कोलॉइडी विलयन में अंतर बताइए।



टिप्पणियाँ

8.3 कोलॉइडों का वर्गीकरण

कोलॉइडी विलयनों का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है—

- (1) प्रावस्थाओं के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर
- (2) आण्विक आमाप के आधार पर

8.3.1 अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण

परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलॉइडी विलयनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।

(i) द्रवरागी कोलॉइड : द्रवरागी शब्द का अर्थ है विलायक के प्रति बंधुता। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि पदार्थों को जब उचित विलायक के साथ मिलाया जाता है तो वे सीधे कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित होकर कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयनों को द्रवरागी विलयन कहते हैं। इन विलयनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम से पृथक कर दिया जाए तो उसे परिक्षेपण माध्यम पुनः मिलाकर विलयन को दुबारा बनाया जा सकता है, यही कारण है कि इन विलयनों को उत्क्रमणीय विलयन कहते हैं। ये विलयन पर्याप्त स्थाई होते हैं।

यदि परिक्षेपण माध्यम पानी हो तो उसे जलरागी कोलॉइड कहते हैं।

(ii) द्रवविरागी कोलॉइड : द्रव विरागी शब्द का अर्थ है - विलायक के प्रति कम बंधुता। Ag और Au जैसी धातुओं, उनके हाइड्रोक्साइडों अथवा सल्फाइडों आदि को जब परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो वे सीधे कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। उन्हें विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है। ये विलयन शीघ्र अवक्षेपित हो जाते हैं और इस प्रकार बहुत स्थाई नहीं होते हैं। उन्हें कोलॉइडी रूप में बने रहने के लिए स्थायीकारक की आवश्यकता होती है। ये अनुत्क्रमणीय विलयन होते हैं, क्योंकि अवक्षेपित होने पर ये विलायक के साथ मिलकर कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम पानी हो तो उसे जलविरागी कोलॉइड कहते हैं।

8.3.2 आण्विक आमाप के आधार पर वर्गीकरण

आण्विक आमाप के आधार पर कोलॉइडों का वर्गीकरण इस प्रकार है :

मॉड्यूल - 3

द्रव्य की अवस्थाएँ



टिप्पणियाँ


कोलाइड

(i) **बृहदाणुक कोलाइड** : इस प्रकार के कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आमाप कोलाइड कणों के आमाप के बराबर बड़ा होता है। (यानि 100 nm)

प्रकृतिक बृहदाणुक कोलाइडों के उदाहरण हैं : स्टार्च, सेल्यूलोस, प्रोटीन आदि।

(ii) **बहु अणुक कोलाइड** : इसमें प्रत्येक परमाणु कोलाइड के आमाप का नहीं होता पर वे आपस में पुंज बनाकर (जुड़कर) कोलाइडों के नाप के अणु बनाते हैं। उदाहरणार्थ : सल्फर विलय में S_8 अणुओं के पुंज कोलाइडों के नाप के होते हैं।

(iii) **संघटित कोलाइड** : ये पदार्थ कम सांद्रण में सामान्य विद्युत अपघट्यों की तरह कार्य करते हैं, परन्तु अधिक सांद्रण में सहयोजित होकर मिसेल बनाते हैं जो कि कोलाइड विलयन की तरह कार्य करते हैं। साबुन इसका उदाहरण है। साबुन लम्बी शृंखला वाले वसीय अम्ल $R\text{COONa}$ का सोडियम लवण है। पानी में डालने पर साबुन RCOO^- और Na^+ देता है। ये RCOO^- आयन मैल के कण के चारों ओर संघटित होकर मिसेल बनाते हैं, इसे चित्र 8.1 में दिखाया गया है।



चित्र 8.1: RCOO^- आयन से मिसेल का बनना

8.4 कोलाइडी विलयनों का विरचन

जैसा पहले बताया जा चुका है द्रवरागी विलय बनाने के लिए पदार्थों को सीधे परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टार्च, जिलेटिन, गोंद आदि के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए उन्हें केवल गर्म पानी में घोला जाता है। उसी प्रकार सेलूलोस नाइट्रेट का कोलाइडी विलय बनाने के लिए उसे ऐल्कोहॉल में घोला जाता है। प्राप्त विलयन को **कोलोडियन** कहते हैं।


किन्तु द्रवविरागी कोलाइडों को प्रत्यक्ष विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। उन्हें बनाने के लिए दो प्रकार की विधियाँ काम में लाई जाती हैं। ये हैं :

(i) भौतिक विधि

(ii) रासायनिक विधि

(i) भौतिक विधि : ब्रेडिंग आर्क विधि

इस विधि का इस्तेमाल स्वर्ण, रजत, प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए किया जाता है (चित्र 8.2)।





चित्र 8.2: ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाइडी विलयन बनाना

इसमें पानी के पात्र में रखे दो धात्विक इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत आर्क आरम्भ किया जाता है। आर्क की उच्च ऊष्मा धातु को वाष्प में परिवर्तित कर देती है। यह वाष्प ठंडे जल बांध में शीघ्र संघनित हो जाती है। इसके फलस्वरूप कोलाइडी आमाप के कण बन जाते हैं। इसे स्वर्ण विलयन कहा जाता है।

पेट्टाइजीकरण : ताजा बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिला कर उसे कोलाइड में बदलने के प्रक्रम को पेट्टाइजीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ, फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड भूरे लाल रंग के कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। ऐसा अवक्षेप द्वारा विद्युत अपघट्य के धनायन के अधिशोषण के कारण होता है। Fe(OH)_3 में FeCl_3 डालने पर, Fe(OH)_3 के कण FeCl_3 के Fe^{3+} आयनों को अधिशोषित कर लेते हैं। अतः Fe(OH)_3 के कण धनावेशित हो जाते हैं और वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं।

(ii) रासायनिक विधि : आक्सीकरण द्वारा :

गंधक विलय प्राप्त करने के लिए H_2S गैस का HNO_3 अथवा Br_2 जल आदि आक्सीकारक विलयन में बुदबुदन किया जाता है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है :



रासायनिक विधि द्वारा Fe(OH)_3 विलय, As_2S_3 विलय भी बनाए जा सकते हैं।

8.5 कोलाइडी विलयनों का शोधन

जब कोलाइडी विलयन बनाया जाता है तो बहुधा उसमें विद्युत अपघट्य अपद्रव्य के रूप में मौजूद रहता है, जो उसे अस्थायीकृत कर देता है। अतः कोलाइडी विलयन के शोधन के लिए



टिप्पणियाँ




टिप्पणियाँ

निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है :

(i) अपोहन


(ii) विद्युत अपोहन

अपोहन : अपोहन का प्रक्रम इस तथ्य पर आधारित है कि पार्चमेंट पत्र या सेलोफेन झिल्ली में से कोलाइडी कण नहीं निकल पाते हैं लेकिन विद्युत अपघट्य के आयन निकल सकते हैं। कोलाइडी विलयन को एक डायलसिस (सेलोफेन) थैली में लेकर स्वच्छ जल से भरे एक पात्र में लटका दिया जाता है। अपद्रव्य धीरे-धीरे बाहर विसरित हो जाता है और थैली में शुद्ध कोलाइडी विलयन रह जाता है (चित्र 8.3)। विसरण द्वारा कोलाइडी कणों को अपद्रव्यों से उपयुक्त झिल्ली की सहायता से अलग करने के प्रक्रम को **अपोहन** कहते हैं।



चित्र 8.3: अपोहन

विद्युत अपोहन : अपोहन प्रक्रम में विद्युत के उपयोग से प्रक्रम की दर बढ़ाई जा सकती है। जब इलेक्ट्रोडों में विद्युत प्रवाह की जाती है तो अपद्रव्य के आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर तीव्र गति से विसरित होते हैं। विद्युत प्रवाह की उपस्थिति में किए गए अपोहन को **विद्युत अपोहन** कहते हैं (चित्र 8.4)।



चित्र 8.4: विद्युत अपोहन

अपोहन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कृत्रिम वृक्क मशीनों में रुधिर के शोधन के लिए किया जाता है। अपोहन झिल्ली में से आयन आदि छोटे कण निकल जाते हैं किन्तु हिमोग्लोबिन आदि कोलाइडी आमाप के कण झिल्ली में से नहीं निकल पाते हैं।




पाठगत प्रश्न 8.2

1. दो कोलाइडों के नाम बताइए जिन्हें ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा बनाया जा सकता है।
2. दो कोलाइडों के नाम बताइए जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जा सकता है।
3. निम्नलिखित में भिन्नता बताइए :
 - (i) द्रवरागी और द्रवविरागी
 - (ii) बृहदाणुक और बहु अणुक कोलाइड
4. मिसेल के बनने की व्याख्या कीजिए।

8.6 कोलाइडों के गुणधर्म

कोलाइडों के गुणधर्मों की नीचे चर्चा की गई है :

- (i) **विषमांग लक्षण** : कोलाइडी कण अपने ही सीमा पृष्ठों में रहते हैं जो उन्हें परिक्षेपण माध्यम से पृथक करते हैं। इस प्रकार कोलाइडी तंत्र दो प्रावस्थाओं का विषमांग मिश्रण होता है। ये दो प्रावस्थाएँ हैं:
 - (क) परिक्षिप्त प्रावस्था
 - (ख) परिक्षेपण माध्यम
- (ii) **ब्राउनी गति** : ब्राउनी गति नाम इसके आविष्कारक रॉबर्ट ब्राउन (वनस्पतिज्ञ) के कारण पड़ा। कोलाइड कणों की संतत और अनियमित टेढ़ी-मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं (चित्र 8.5)। विलायक के अणुओं की कोलाइडी कणों के साथ टक्कर से ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। विभिन्न दिशाओं से लगने वाले बल असमान होते हैं इसलिए कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है।




चित्र 8.5: ब्राउनी गति





टिप्पणियाँ


(iii) **टिन्डल प्रभाव** : 1869 में टिन्डल ने प्रेक्षण किया कि यदि कोलाइडी विलयन में प्रकाश की तीव्र किरण पुंज प्रविष्ट की जाए तो प्रकाश-पथ प्रदीप्त हो जाता है। इस परिघटना को टिन्डल प्रभाव कहते हैं। यह परिघटना कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से होती है (चित्र 8.6)। जब सूर्य की किरणें किसी रेखाच्छिद्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करती हैं तो यही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह हवा के धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है।



चित्र 8.6: टिन्डल प्रभाव

(iv) **वैद्युत गुणधर्म** : कोलाइडी विलयन के कण विद्युत आवेशित होते हैं। सभी कणों में धन अथवा ऋण एकसमान आवेश होता है। परिक्षेपण माध्यम का समान और विपरीत आवेश होता है, इसीलिए कोलाइडी कण एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं और एकत्र होकर नीचे नहीं बैठते हैं। उदाहरण के लिए आर्सेनियस सल्फाइड विलय, स्वर्ण विलय, रजत विलय आदि में ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं जबकि फेरिक हाइड्रॉक्साइड, ऐल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड आदि में धन आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी कणों के आवेशित होने के अनेक कारण हैं।

(i) कोलाइडी कणों द्वारा धनायनों अथवा ऋणायनों का अधिशोषण



चित्र 8.7: वैद्युत कण संचलन प्रक्रम



(ii) मिसेल आवेशित होते हैं

(ii) कोलाइडों के विरचन के दौरान, मुख्यता ब्रेडिंग आर्क विधि में कोलाइड कण इलेक्ट्रानों को ग्रहण कर आवेशित हो जाते हैं। कोलाइड कणों पर आवेश की उपस्थिति को वैद्युत कण संचलन प्रक्रम द्वारा दिखाया जा सकता है। वैद्युत कण संचलन प्रक्रम में कोलाइडी कण विद्युत प्रवाह के प्रभाव से कैथोड अथवा एनोड की तरफ गतिशील होते हैं। प्रयोग में आनेवाला उपकरण चित्र 8.7 में दिखाया गया है।

8.7 स्कंदन या अवक्षेपण (Coagulation or Precipitation)

द्रवविरागी सॉल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिया जाये तो कण एक-दूसरे के समीप आकर पुंजित (यास्कंदित) हो जायेंगे एवं गुरुत्व बल के कारण नीचे बैठ जाएंगे।

कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया सॉल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है।


द्रवस्नेही सॉल का स्कंदन निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है—

- (i) **वैद्युत कण संचलन द्वारा:** कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओरगति करते हैं एवं इलेक्ट्रोड पर आवेश विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं।
- (ii) **दो विपरीत आवेशित सॉल को मिश्रित करने से:** जब दो विपरीत आवेशित सॉल लगभग समान अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं, तो वे एक-दूसरे के आवेश को उदासीन करके आंशिक या पूर्णतया अवक्षेपित हो जाते हैं। जलयोजित फेरिकऑक्साइड (धन-आवेशित सॉल) एवं आर्सेनियस सल्फाइड (ऋण-आवेशित सॉल) को मिश्रित करने पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार का स्कंदन पारस्परिक स्कंदनकहलाता है।
- (iii) **क्वथन द्वारा:** जब एक सॉल को उबाला जाता है तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओंके साथ संघट्ट बढ़ने से अधिशोषित परत विक्षुब्ध हो जाती है। इससे कणों पर उपस्थित आवेश कम हो जाता है और अंततः इसके कारण वे अवक्षेप के रूप में नीचे बैठे जाते हैं।
- (iv) **वैद्युत अपघट्य को मिलाकर:** जब एक वैद्युतअपघट्य प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता हैतो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से अन्योन्यक्रिया करते हैं। इससे उदासीनीकरण होता है जिससे स्कंदन हो जाता है। कणों पर आवेश के उदासीनीकरण के लिए उत्तरदायी आयन स्कंदक आयन कहलाते हैं। एक ऋण आयन धनात्मक आवेशितसॉल का स्कंदन करता है और इसके विलोमतः भी होता है। यह देखा गया है कि साधारणतः ऊर्णी कर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी अवक्षेपण की क्षमता होती है। इसे **हार्डी-शुल्ज** नियम कहते हैं। ऋणसॉल के स्कंदन में ऊर्णन क्षमता का क्रम $Al^{3+} > Ba^{2+} > Na^+$ होता है।



टिप्पणियाँ

इसी प्रकार धन सॉल के स्कंदन में ऊर्जन क्षमता का क्रम—



किसी विद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में न्यूनतम सांद्रता जो किसी सॉलको दो घंटों में स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो, स्कंदन मान कहलाती है। जितनी कम मात्रा की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक उस आयन की स्कंदन शक्ति होगी।

8.7.1 द्रवरागी सॉल का स्कंदन

द्रवरागी सॉल के स्थायित्व के लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं। ये दो कारक हैं, कोलाइड कणों पर आवेश एवं उनका विलायकयोजन। जब ये दोनों कारक हटा दिए जाते हैं, तो द्रवरागीसॉल को स्कंदित किया जा सकता है। यह (i) वैद्युतअपघट्य मिलाकर एवं (ii) उपयुक्त विलायक मिलाकर किया जा सकता है।

जब द्रवरागी सॉल में एल्कोहॉल एवं ऐसीटोन जैसे विलायक मिलाए जाते हैं तो परिष्कृतप्रावस्था का निर्जलीकरण हो जाता है। इस परिस्थिति में वैद्युत अपघट्य की कम मात्रा से भी स्कंदन हो सकता है।

कोलाइडों का रक्षण

द्रवरागी सॉल, द्रवविरागी सॉल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण यह है किद्रवरागी कोलाइड व्यापक रूप से विलायकयोजित होते हैं अर्थात् कोलाइड कण जिस द्रव मेंपरिष्कृत होते हैं, उससे आच्छादित हो जाते हैं।


द्रवरागी कोलाइडों में द्रवविरागी कोलाइडों के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। जबद्रवरागी सॉल को द्रवविरागी सॉल में मिलाया जाता है तो द्रवरागी कण, द्रवविरागी कणों केचारों ओर एक परत बना लेते हैं एवं इस प्रकार वे उसकी वैद्युत अपघट्य से रक्षा करते हैं।इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त द्रवरागी कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं।

8.8 कोलाइड विलयन के अनुप्रयोग

कोलाइडों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके कुछ अनुप्रयोगों की यहाँ चर्चा की गई है।

- (i) **मल व्यवस्था :** धूल, हवा आदि के कोलाइड कणों में विद्युत आवेश होता है। जब मल को उच्च विभव पर रखी धातु की प्लेटों के बीच प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइड कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और वहाँ अवक्षेपित हो जाते हैं। इससे मल-जल का शोधन हो जाता है।
- (ii) **कुओं के पानी का शोधन :** जब पंकिल जल में फिटकरी मिलाई जाती है तो कोलाइड के ऋण आवेशित कण फिटकरी के Al^{3+} आयनों द्वारा उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार पंक कण नीचे बैठ जाते हैं और पानी को छान कर इस्तेमाल किया जा सकता है।

- (iii) **धूम्र अवक्षेपण** : धूम्र कण वास्तव में, हवा में कार्बन के विद्युत आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। इस कार्बन का अवक्षेपण काट्रेल अवक्षेपण द्वारा किया जाता है। चिमनी से निकलने वाले धुएँ को एक कक्ष में प्रविष्ट कराया जाता है। कक्ष में अनेक धातु-प्लेटें एक धातु के तार से जुड़ी रहती हैं। यह तार उच्च विभव स्रोत से जुड़ा रहता है जैसाकि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। धुएँ के आवेशित कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकृष्ट होकर अवक्षेपित हो जाते हैं और गरम स्वच्छ वायु बाहर निकल जाती है।



चित्र 8.8: काट्रेल धूम्र अवक्षेपण

दैनिक जीवन में अन्य अनुप्रयोग इस प्रकार हैं :

- (i) **फोटोग्राफी** : जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के कोलाइडी विलयन को काँच की प्लेटों अथवा सेलुलाइड फिल्मों पर प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार फोटोग्राफी में प्रयोग होनेवाली सुग्राही फिल्में प्राप्त होती हैं।
- (ii) **रुधिर आतंचन** : रुधिर, कोलाइडी विलयन है जो ऋण आवेशित होता है। FeCl_3 विलयन प्रयुक्त करने पर रुधिर का बहना बंद हो जाता है और रुधिर आतंचन हो जाता है। इसका कारण यह है कि Fe^{3+} आयन रुधिर के कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देते हैं जिससे आतंचन हो जाता है।
- (iii) **रबर पट्टन** : लेटेक्स, ऋण आवेशित रबर कणों का कोलाइडी विलयन होता है। जिस वस्तु को रबर पट्टित करना हो उसे रबर पट्टन बाथ में एनोड बनाया जाता है। ऋण आवेशित रबर कण एनोड की ओर जाते हैं और उस पर निक्षेपित हो जाते हैं।
- (iv) **आकाश का नीला रंग** : क्या आपने कभी सोचा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसका कारण यह है कि आकाश में तैरने वाले कोलाइडी धूल कण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यदि आकाश में कोलाइड कण न होते तो पूरा आकाश अंधकारपूर्ण लगता।



टिप्पणियाँ



टिप्पणियाँ

8.9 पायस और जैल

पायस वे कोलॉइडी विलयन होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, क्योंकि मिश्रणीय होने पर वे वास्तविक विलयन बना देंगे। पायस दो प्रकार के होते हैं :

(i) पानी में तेल का पायस : यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पानी होता है। इसका उदाहरण दूध है क्योंकि दूध में द्रव वसा पानी में परिक्षिप्त होती है। इसका दूसरा उदाहरण चेहरे पर लगाने वाली क्रीम है।

(ii) तेल में पानी : इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था पानी और परिक्षेपण माध्यम तेल होता है। मक्खन, कॉड लिवर तेल, कोल्ड क्रीम आदि इसके उदाहरण हैं।

रखने पर अमिश्रणीय होने के कारण पायस के दोनों द्रव यानि तेल और पानी अलग हो जाते हैं। इसलिए पायस को स्थाई बनाने के लिए इनमें पायसीकारक मिलाए जाते हैं। साबुन एक उपयोगी पायसीकारक है। पायसीकारक की उपस्थिति में पायस बनाने के प्रक्रम को पायसीकरण कहते हैं।

पायसीकारक कैसे कार्य करता है? पायसीकारक तेल और पानी के अंतरापृष्ठ पर सांद्रित होकर उन्हें बांध देता है।

पायस के अनुप्रयोग : पायस हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ अनुप्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं :

1. कपड़ों और शरीर पर से मैल धोने की साबुन और संश्लेषित अपमार्जक की प्रक्रिया, तेल और पानी के पायस बनने पर ही आधारित है।
2. दूध, पानी और वसा का पायस है। मक्खन और क्रीम भी पायस हैं।
3. विभिन्न प्रकार की चेहरे की क्रीम और लोशन भी पायस हैं।
4. कॉड लिवर तेल जैसी तलीय औषधि जल्दी और बेहतर अवशोषण के लिए पायस के रूप में दी जाती है। कुछ मरहम भी पायस के रूप में होते हैं।
5. आंतों में वसा का पाचन भी पायसीकरण द्वारा होता है।
6. सल्फाइड अयस्क के शोधन के लिए प्रयुक्त फेन फ्लवन प्रक्रम में उसका तेल का पायस के साथ उपचार किया जाता है। मिश्रण को संपीडित वायु से प्रक्षेपित करने पर अयस्क कण पृष्ठ पर आ जाते हैं, तब उन्हें अलग कर लिया जाता है।

जैल - जिन कोलॉइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है उन्हें जैल कहते हैं। पनीर, जैली, बूट पॉलिश, जैल के उदाहरण हैं। अधिकतर उपयोग होनेवाले जैल जलरागी कोलॉइडी विलयन होते हैं, जिनका तनु विलयन उचित परिस्थितियों में लचीले अर्धठोस पदार्थ में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जिलेटिन का पानी में 5% जलीय विलयन ठंडा करने पर जैली का ब्लाक बन जाता है।

रखने पर जैल उसमें उपस्थित कुछ द्रव खो देते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इसे संकोच पार्थक्य या रखने पर जमना कहते हैं।

जैल दो प्रकार के होते हैं - लचीले जैल और अलचीले जैल।

लचीले जैल उत्क्रमणीय होते हैं। पानी खोने पर जैसे वे जमते हैं, पानी मिलाने पर वे वापिस मूल अवस्था में आ जाते हैं। अलचीले जैल अनुत्क्रमणीय होते हैं।

जैल कई प्रकार से उपयोग में आते हैं। सिलिका, पनीर, जैली, बूट पॉलिश, दही, काफी उपयोग होनेवाले जैल हैं। ठोस एल्कोल ईंधन, ऐल्कोहल का कैल्सियम एसिटेट में जैल है।



टिप्पणियाँ

8.10 नेनो पदार्थ

कुछ समय से नेनो पदार्थों ने बहुत अधिक आकर्षित किया है क्योंकि इनका उपयोग जैसे कि औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न उद्योगों में होता है। ये धातुएं, सिरेमिक्स, बहुलक पदार्थ या मिश्र पदार्थ हो सकते हैं।

जिन पदार्थों के कणों के आकार के परिमाण का विस्तार 1 nm – 100 nm होता है वे नेनो पदार्थ कहलाते हैं। एक नेनोमीटर 10^{-9} m होता है जो कि आकार में बहुत छोटा होता है। इसका लगभग तीन से पाँच परमाणुओं के आकार के लगभग एक पंक्ति में पंक्तिवद्धता करने जैसा होता है।

नेनो पदार्थ उत्पन्न किये गये और सौ सालों से उपयोग में लाया गया है। कुछ प्रकार के ग्लासों को सुन्दर बनाने में रूबी लाल रंग इसमें उपस्थित स्वर्ण के नेनो कणों के कारण होता है। कुछ पुराने सिरेमिक्स उद्योग की वस्तुओं पर सजावटी चमक इसके ग्लेज में उपस्थित धातुओं के नेनो कणों के कारण होती है।

नेनो पदार्थों का दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है।

(i) फुलेरीन (ii) अकार्बनिक नेनो पदार्थ

(i) फुलेरीन

फुलेरीन कार्बन के अपरूप होते हैं जो कि खोखले कार्बन गोलक होते हैं जिनमें बहुत अधिक कार्बन परमाणु रासायनिक रूप में आबंधित होते हैं जैसे C_{60}

(ii) अकार्बनिक नेनो कण

अकार्बनिक नेनो कण धातुओं अर्धचालकों या आक्साइडों से बनते हैं। जिनके विशेष प्रकार वैद्युत, यांत्रिक प्रकाशिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं।

गुणधर्म

नेनो पदार्थ बहुत से प्रकार में मिलते हैं और इनके गुणधर्मों और सम्भव उपयोगों का विस्तार बहुत अधिक होता है।

(i) इनका उपयोग लघु बैटरीज, अति अधिशोषक बहुत छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति आटोमोबाइल के पार्टों और पैकेजिंग फिल्मों के बनाने में होता है।



टिप्पणियाँ

- (ii) नेनो केप्सुल्स और नेनोयुक्तियाँ औषध देने जीन उपचार और चिकित्सा निदान सूचक के लिए नई सम्भभावनाएँ तलाशती है।
- (iii) नेनोमिश्रित कणों कम मात्रा में नेनो पदार्थों को बहुलकों में मिश्रित प्राप्त किये जाते हैं। उदाहरण के लिए पोलिएमाइड रेजिन में 2% आयतन के रूप में सिलिकेट नेनोकण मिलाने पर पोलिएमाइड की शक्ति में 100% वृद्धि हो जाती है। नेनोकणों के मिलाने पर केवल यांत्रिकी गुणों में ही सुधार नहीं होता है ये तापीय स्थायीत्व में सुधार कर देते हैं।
- (iv) सामान्यतः नेनोकणों उच्च प्लैस्टिकता होती है।
- (v) अधिक पृष्ठ के कारण नेनोकण सक्रमण धातुओं के आक्साइडों में उत्प्रेरक गुणधर्म उत्पन्न कर देते हैं।
- (vi) चुम्बकीय नेनोकण अति अनुचुम्बकत्व दर्शाते हैं और नये स्थाई चुम्बकीय पदार्थों की खोज में योगदान देते हैं।



आपने क्या सीखा

- कोलाइडी अवस्था में कणों का आमाप, निलंबन के और वास्तविक विलयन के कणों के आमाप का मध्यवर्ती होता है।
- कोलाइडी तंत्र आठ प्रकार के होते हैं।
- विलयों का वर्गीकरण (i) परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया (ii) परिक्षिप्त प्रावस्था के अणुक आमाप के आधार पर होता है।
- कोलाइडी विलयन भौतिक और रासायनिक, दोनों विधियों द्वारा बनाए जाते हैं।
- कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं।
- कोलाइडी आमाप के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और धूल कणों के कारण अर्ध प्रकाशित कमरे में प्रकाश पथ दिखाई देता है।
- कोलाइडी कणों में विद्युत आवेश होता है।
- एक द्रव का दूसरे द्रव में कोलाइडी परिक्षेपण को पायस कहते हैं।
- यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव परिक्षिप्त हो तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को जैल कहते हैं।
- कोलाइडों का दैनिक जीवन और उद्योगों में बहुत उपयोग होता है।
- नैनो पदार्थों के कणों का आकार 1–100nm होता है। इनके कुछ खास गुणों के कारण इनका अत्यधिक उपयोग होता है।



पाठांत प्रश्न

- वास्तविक विलयन और कालॉइडी विलयन में पाई जाने वाली तीन विभिन्नताएँ बताइए।
- निम्नलिखित कोलाइडों को बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिए
(क) द्रवरागी कोलाइड (ख) द्रवविरागी कोलाइड
- संघटित कोलाइड क्या होते हैं?
- ब्राउनी गति क्या होती है? यह किस तरह आरंभ होती है?
- फिटकरी लगाने से ताजे घाव से रक्त स्राव क्यों बन्द हो जाता है?
- A और B दो बीकरों में क्रमशः फेरिक हाइड्रॉक्साइड विलय और NaCl विलयन रखा है। जब किसी अंधेरे कमरे में उनमें प्रकाश किरणपुंज केन्द्रित किया जाता है तो बीकर A में प्रकाशपुंज दिखाई देता है किन्तु बीकर B में नहीं दिखाई देता। इसका कारण बताइए। इस प्रभाव का नाम बताइए।
- निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दीजिए :
(i) जैल (ii) विलय
प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।
- कोलाइडी विलयनों के दो प्रमुख अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए।
- दैनिक जीवन में प्रयुक्त पायसों के दो उदाहरण दीजिए।
- पायस में पायसीकारक क्या कार्य करता है?
- नैनो पदार्थ क्या है? इसके तीन उपयोग बताए।



टिप्पणियाँ



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

8.1

- निलंबन -
-
पानी में मृदा, पानी में बालू
कोलाइडी विलयन - दूध, रुधिर, बूट पॉलिश, चेहरे की क्रीम, जैली
वास्तविक विलयन - पानी में शर्करा
- विलय - पानी में स्टार्च
जैल - सिलिका जैल
वायुसॉल - कुहरा
पायस - दूध

मॉड्यूल - 3

द्रव्य की अवस्थाएँ



टिप्पणियाँ

कोलाइड

3. ऐल्कोसॉल – जब एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम होता है
हाइड्रोसॉल – जब पानी परिक्षेपण माध्यम होता है
4. वास्तविक विलयन कोलॉइडी विलयन
(1) विलेय कणों का आमाप 1 nm से कम (1) कणों का आमाप 1–100 nm.
(2) पारदर्शी विलयन बनाते हैं जिनमें से प्रकाश (2) प्रकाश का पथ दिखाई देता है।
गुजर सकता है।

8.2

1. स्वर्ण विलय, प्लेटिनम विलय
2. As_2S_3 , $Fe(OH)_3$ (असिनियस सल्फाइड विलय, फेरिक हाइड्रॉक्साइड विलय)
3. **द्रवरागी विलय :** **द्रवविरागी विलय :**
(1) आसानी से बन सकते हैं विशेष विधियों द्वारा बनते हैं।
(2) परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण देनों प्रावस्थाओं में कोई बंधुता माध्यम में बंधुता होती है नहीं होती
(3) उत्क्रमणीय होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं।

बृहदाणुक

कणों का आमाप कोलॉइडी कणों के आमाप क्षेत्र में आता है।

बहु अणुक

प्रत्येक कण कोलॉइडी आमाप का नहीं होता पर जुड़कर पुंज बनने के बाद अणु कोलॉइडी आमाप का हो जाता है।

4. खण्ड 8.3.2(C) देखें।